



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 कार्तिक 1945 (श10)

(सं० पटना 882) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अक्टूबर 2023

बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड

अधिसूचना

21 सितम्बर 2023

सं० 2918—कार्यालय आदेश ज्ञापांक-599 दिनांक-11.04.2009 द्वारा मन्नु खानम जान वक्फ इस्टेट सं०-15, मुरादपुर, पटना की भूमि को वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32(5) के अंतर्गत बोर्ड के सीधे नियंत्रण में लिया गया है, जिसकी अवधि को बोर्ड के सप्लीमेंट्री संकल्प सं०-12 दिनांक-12.08.2023 द्वारा पुनः विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त संकल्प में लिये गये निर्णय के आलोक में मन्नु खानम जान वक्फ इस्टेट सं०-15 मुरादपुर, पटना की भूमि (वार्ड नं०-08, शीट नं०-67, प्लॉट नं०-268, प्लॉट नं०-269, प्लॉट नं०-270, प्लॉट नं०-271, एवं प्लॉट नं०-272) को वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-32 की उपधारा-05 एवं 06 के अंतर्गत विकसित करने एवं लागत राशि की प्रतिपूर्ति होने तक बोर्ड के सीधे नियंत्रण में रखने का आदेश दिया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि उक्त की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 882-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>